

Date: 03<sup>rd</sup> September, 2024

1) The Manager,	2) The Listing Department
Listing Department,	Corporate Relationship Department
National Stock Exchange of India Limited,	BSE Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,	1 <sup>st</sup> Floor, New Trading Wing, P.J. Towers
Bandra (East), Mumbai-400051	Dalal Street Fort, Mumbai-400001
Scrip Code – ARCHIES	Scrip Code - 532212

<u>Subject:</u> Submission Newspaper Advertisement for the Notice of 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM"), Remote E-Voting and Book Closure for AGM

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the newspaper advertisements for the Notice of 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM"), Remote E-Voting and Book Closure for AGM, published in the Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 03<sup>rd</sup> September, 2024.

You are kindly requested to take the same on records & acknowledgement.

Thanking you

Yours faithfully,

#### For ARCHIES LIMITED

JAGDISH
Digitally signed by JAGDISH
MOOLCHANDA
MOOLCHANDAN
Date: 2024.09.03 17:04:44
NI
+05'30'

Jagdish Moolchandani

(Executive Director and Chief Financial Officer)

Encl: As above

**FINANCIAL EXPRESS** 



#### **National Commodity & Derivatives Exchange Limited**

CIN: U51909MH2003PLC140116

Registered Office: Akruti Corporate Park, 1st Floor, L.B.S. Road, Near G.E.Garden,

Kanjurmarg West, Mumbai, Maharashtra 400078.

Ph: 022-66406789 | Fax (+91-22) 6640 6899

Website: www.ncdex.com Email: askus@ncdex.com

#### NOTICE OF TWENTY FIRST ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Twenty First Annual General Meeting ("the AGM") of National Commodity & Derivatives Exchange Limited ('the Company") will be held on Friday, September 27, 2024 at 11:00 a.m. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM without any physical presence of Members pursuant to the General Circulars May 5, 2020, April 8, 2020, April 13, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 (collectively referred to as 'MCA General Circulars') and Circulars dated January 15, 2021, May 12, 2020, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars").

In compliance with the Circulars, Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-2024 has been sent only through electronic mode, to all the Members of the Company whose email addresses were registered with the Company's Registrar and Transfer Agents, M/s. Link Intime India Private Limited ("RTA") / Depository Participant(s). The Notice of AGM and Annual Report, are available on the Company's website at https://www.ncdex.com and at https://instavote.linkintime.co.in (agency providing e-Voting facility).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is providing the facility for e-voting on all resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ("Link Intime") to provide the facility for remote e-Voting as well as e-Voting during the AGM. Members of the Company, holding shares, as on the Cut-off date, i.e. Friday, September 20, 2024, shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting during the AGM.

Members may note the following details for VC/OAVM facility and e-Voting:

Commencement of remote e-Voting	Tuesday, September 24, 2024 at 9.00 a.m. IST	
e-Voting end time and date	Thursday, September 26, 2024 at 5.00 p.m. IST	

The remote e-voting shall be disabled by Link Intime for voting thereafter and Members will not be allowed to vote beyond the said date and time. In addition to the above, the facility for e-Voting shall also be made available at the AGM for Members holding shares as on the Cut-off date, who have not casted their vote prior to the AGM by remote e-Voting. Detailed instructions for e-Voting are provided in the Notice of AGM.

Members, as on the Cut-off date, are requested to attend the AGM through VC/OAVM facility by following the process mentioned in the Notice of AGM. Members may participate and attend the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote during the AGM.

Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the Cut-off date may download the Notice of AGM from the above referred Websites and follow the procedure for remote e-Voting/ attending the AGM through VC/ e-Voting at the AGM as mentioned in the Notice of AGM.

In case of any guery and/ or grievance, in respect of e-Voting, Members may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President, Link Intime India Private Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or send an email to enotices@linkintime.co.in or call on 022-49186175.

> By Order of the Board of Directors For National Commodity & Derivatives Exchange Limited

Place: Mumbai Date: September 2, 2024

**Orchies** 

The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 191F. Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050

CIN: L36999HR1990PLC041175,

Web: www.archiesonline.com & www.archiesinvestors.in

Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666

Notice of 34th Annual General Meeting, Book Closure & E-Voting

Notice is hereby given that the 34th (Thirty Fourth) Annual General Meeting ("AGM"

of Archies Limited (CIN L36999HR1990PLC041175) will be held on Tuesday

September 24, 2024 at 03:00 P.M. through VC/OAVM to transact the businesses, as

set forth in the Notice of the AGM. The Annual Report & Notice of AGM along with

the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 along

with the detailed instructions and information relating to voting (including remote e-voting) have been sent to all the members who have sought the physical copies

of the same at their registered address and to all other members through electric

mode. The same is also available on the Company's website a

www.archiesinvestors.in. The Company has completed the dispatch of the Notice

n compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, January

15, 2021 and May 13, 2022, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financia

Year 2023-24 has been sent on September 02, 2024 to all the members whose email

addresses are registered with the Company / Depositories. The Notice of AGM and

Annual Report also made available on the website of the Company i.e.

www.archiesinvestors.in and the websites of the Stock exchanges i.e. BSE Limited

at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at

In order to receive the Notice and Annual Report, members are requested to register

update their email addresses with the Depositories in case share are held in demat

and with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Link Intime

India Pvt. Ltd. (https://instavote.linkintime.co.in) in case shares are held in physica

mode. For any query relating to registration of e-mail address, members may write at

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies

(Management and Administration) Amendment Rule, 2014 and Regulation 44 of SEB

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company

is providing facility for voting by electric means to its members to cast their votes on

all the resolutions set forth in the Notice of AGM using system from a place other that

Members holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off

date i.e. Tuesday, 17th September, 2024, shall be entitled to avail the facility of remote

e-voting and voting at the venue of AGM. The Company has engaged the services of

Link Intime India Pvt. Ltd. (https://instavote.linkintime.co.in) to provide e-voting facility.

Date of completion of sending notice of AGM and Annual Report-2023-24 through

The Ordinary and Special Business stated in the Notice of 34th AGM of the

Company shall be transacted through voting by electronic means and voting at the

The remote e-voting shall commence on Saturday, 21st September 2024 (09:00

A.M. IST) and ends at Monday, 23rd September 2024 (05:00 P.M. IST) Thereafter,

The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained with depositories as on cut-off date will be entitled

A person who becomes the member of the Company after dispatch of the notice of

the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the user id and

The facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM and

members attending the meeting who have not already casted their vote by remote

e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting. The members

who have already casted their votes by remote e-voting prior to the AGM may

n case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

members and e-voting user manual for members available at https://

instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to

Members holding shares in physical form, who have not registered their email addresses

with the Company can obtain the Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2023-

24 by sending scanned copy of request letter mentioning the folio no, and name of the

shareholder, self-attested copy of PAN and AADHAR by email to the Company at

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain

closed on Wednesday, September 18, 2024 to Tuesday, September 24, 2024 (both

The Company has appointed Mr. Naveen Shree Pandey, Practising Company Secretary

(FCS No. 9028 &CP, No. 10937) Proprietor of M/s NSP & Associates, Company

Secretaries as Scrutinizer to scrutinize voting process in a fair and transparent manner

The results on resolutions shall be declared not later than 48 hours from the conclusion

of the Meeting of the Company. The results declared along with the scrutinizer's Repor

will be made available on the website of the Company at www.archiesinvestors.in

and on Service Provider's website at https://instavote.linkintime.co.in and the same

shall be communicated to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited

The Members are requested to update their complete bank account details with their

Depositories in case shares are held in demat mode and in case of physical holding,

with the Company's RTA or at cs@archiesonline.com along with the copy of the request

letter mentioning the name of the member, folio number, bank account details, self-

Facilities to the shareholders to register their email address along with mobile number

and bank account detail in one go. To avail this facility, the shareholders are required

to go through the following link to register their email IDs, mobile numbers and bank

to avail the facility of remote e-voting or voting during the AGM;

password by sending a request at enotices@linkintime.co.in;

hours before the time fixed for commencement of the meeting

attend the AGM but shall not be entitled to vote again,

enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel: 022 - 49186000.

Scrutinizer for e-voting and declaration of results

cs@archiesonline.com.

Place: Delhi

Date: 02.09.2024

days inclusive) for the purpose of AGM.

and in accordance with the applicable laws.

within 48 hours from the conclusion of the Meeting

attested copy of PAN and cancelled cheque leaf.

Click here: https://linkintime.co.in/emailreg/email\_register.html.

of AGM and the Annual Report on September 02, 2024.

enotices@linkintime.co.in or cs@archiesonline.com.

the venue of the meeting (remote e-voting).

All members are informed that:

e-mail: September 02, 2024;

the e-voting module will be disabled;

voting at the AGM is 17th September, 2024;

www.nseindia.com respectively.

#### UNITED CREDIT LIMITED CIN: L65993WB1970PLC027781

Regd. Office: 27B, Camac Street (8th Floor), Kolkata - 700016 Ph.No. (033) 2287-9359 / 9360, Fax No. (033) 2287-2047 E-mail: unitedcreditltd@gmail.com, Website: www.unitedcreditltd.com

NOTICE OF THE 53" ANNUAL GENERAL MEETING & CUT-OFF DATE FOR E-VOTING NOTICE is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of United Credit Limited will be held on Wednesday, the 25th day of September, 2024 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the business set out at the Notice of the 53rd AGM in conformity with General Circular No. 09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 25th September, 2023 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 (hereinafter collectively referred for as "the Circulars") and all

Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 has been sent only through electronic mode to those Members whose email addresses were registered with the Company or Depositories or the Registered and Share Transfer Agents, ("RTA") i.e., C B Management Services (P) Ltd on 2nd September, 2024. Members may note that the Notice and Annual Report for the financial year 2023-24 is also available on the Company's website www.unitedcreditItd.com, website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and The Calcutta Stock Exchange Limited at www.bseindia.com and www.cse-india.com and the Notice is also available on the e-Voting website of CDSL, viz. www.evotingindia.com

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to the Members to enable them to cast their votes electronically in respect of all business set-out in the Notice of the 53rd AGM through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The business set out in the Notice of the 53rd AGM shall be transacted by e-voting only. Members of the Company holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e., 18th September, 2024 (End of Day) may cast their votes electronically by remote evoting as well as e-voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Saturday, 21st September, 2024 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, 24th September, 2024 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter.

Any person who becomes Member after the dispatch of the Notice of the 53rd AGM and holding Shares as on the cut-off date i.e. 18th September, 2024 (End of Day) may obtain the user id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or C B Management Services (P) Ltd., RTA of the Company at rta@cbmsl.com. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to AGM may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to e-voting again at the AGM. Members who are attending the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the resolutions by remote e-voting shall be eligible to cast their vote by e-voting at the AGM. The detailed instructions for remote e-voting, and e-voting during the AGM and joining the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the 53rd AGM and the Annual Report.

Members holding shares in Physical form who have not registered/updated their email address, mobile no., bank account mandate with the Company/ RTA, are requested to submit Form ISR 1 duly filed and signed with the RTA of the Company at rta@cbmsl.com Members may download the prescribed forms from the Company's website at www.unitedcreditltd.com or the RTA's Website at www.cbmsl.com. Members holding shares in Demat form, who have not registered/updated their email address, mobile no. bank account mandate are requested to contact their Depository Participant (DP), and

register/update the same as per the advice given by their DP. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai-400013 or send an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call

at toll free no. 1800 21 09911. For UNITED CREDIT LIMITED

Place: Kolkata

Section 103 of the Companies Act, 2013.

Place: Noida (U.P.)

Deepali Gupta Company Secretary (Membership No. A65652)

#### optiemus OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi - 110024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh - 201307 Website: www.optiemus.com | Email: info@optiemus.com | Ph: 011-29840906

CIN: L64200DL1993PLC05408

NOTICE REGARDING 31<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, the 30th Day of September, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively, followed by Circular No. 09/202. dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and all other applicable circulars and notifications issued by the MCA and SEBI, to transact the business as set out in the Notice of AGM. Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of guorum unde

In compliance with the above circulars, only electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all those shareholders whose e-mail address are registered with the Company/Depository Participants. Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the Company's website at www.optiemus.com.and on the website of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mai address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to register / update their e-mail address and mobile numbers, by submitting duly filled and signed Form ISR-1 available on the Company's website under the web link https://www.optiemus.com shareregistration.html, along with requisite supporting documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, New Delhi - 110062, Telephone: 011-29961281-83;

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail address will be provided in the Notice of AGM, which shall also

be available on the website of the Company at. www.optiemus.com. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and the shareholders attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, will

be able to vote at the AGM. The Notice of 31st AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their registered e-mail address shortly.

Sd/ Date: September 02, 2024

Vikas Chandra Company Secretary & Compliance Officer

By order of the Board Optiemus Infracom Limited

## Blyog SUYOG TELEMATICS LIMITED

CIN:L32109MH1995PLC091107

Regd. Office: Suyog House, Plot No 30, MIDC Central Road, Andheri East, Mumbai 400093 Tel.: 022-25795516/28390670 | Email Id: investor@suyogtelematics.co.in | Website: www.suyogtelematics.co.in

#### NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Suyog Telematics Limited ("Company") will be convened on Tuesday, September 24, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued in this regard. latest being 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars").

The Company has sent the AGM Notice along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 on September 2, 2024, through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/ Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. Bigshare Services Pvt. Ltd. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24 is available on the website

of the Company at www.suyogtelematics.co.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdi.com. Additionally, the Notice of AGM and Annual Report is also be available on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") at www. bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), each as amended from time to time, the Company is providing remote e-Voting facility before and during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice convening the AGM.

1. Members are requested to take note of the following:

Commencement of remote e-voting 9.00 a.m. (IST) on Friday, September 20, 2024

5.00 p.m. (IST) on Monday, September 23, 2024 End of remote e-voting The remote e-Voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote

2. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 17, 2024 (Cut-Off Date). Members will be provided with the facility for voting through electronic voting system during the VC/OAVM proceedings at the AGM and Members participating at the AGM, who have not already cast their vote on the resolution(s) by remote e-Voting, will be eligible to exercise their right to vote on such resolution(s) upon announcement by the Chairman. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM will be eligible to participate at the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s). again. The e-Voting module on the day of the AGM shall be disabled by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.

3. Any shareholder(s) holding shares in physical form or non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the Tuesday, September 17, 2024 (Cut-Off Date), may obtain the User ID and Password by sending a request at investor@suyogtelematics.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-Voting then the Member, can use their existing User ID and password for casting the vote.

4. In case of Individual Shareholder who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares in demat mode as on the cut-off date may follow the steps mentioned under "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode" as provided in

name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before the AGM as well as remote e-Voting during 6. queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders

available at the "Downloads" section of NSDL's website i.e. www.evoting.nsdi.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 2499 7000 or send a request at evoting@nsdi.co.in who will address the grievances connected with the voting by electronic means or Members may also write to the Ms. Aarti Shukla, Company Secretary & Compliance Officer at the Company's email address at investor@suyogtelematics.co.in.

is appointed as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. By the Order of Board of Directors

For Suyog Telematics Limited

Place: Mumbai Date: 02.09.2024

Mr. Shivshankar Lature Chairman & Managing Director DIN: 02090972



Sd/-

FCS 2945

Hoshi D. Bhagwagar

Company Secretary

#### **GUJARAT INFRASTRUCTURE** GIDB DEVELOPMENT BOARD (GIDB)

8th Floor, Block No. 18, Udyog Bhavan, Sector -11, Gandhinagar, Gujarat-382 017 Phone No.: 91-079-23232701/4, Fax No.: 91-079-23222481, Website: www.gidb.org

Selection of Consultant for providing Advisory Support / Project Management Unit to GIDB TENDER NOTICE

Gujarat Infrastructure Development Board (GIDB) is pleased to invite competitive bids from interested Consulting Firms for the tender "Selection of Consultant for providing Advisory Support

Project Management Unit to GIDB". The Request for Qualification cum Request for Proposal (RFQ cum RFP) Document

is available on https://tender.nprocure.com and www.gidb.org Chief Executive Officer

Gujarat Infrastructure Development Board (GIDB)

#### SANATHNAGAR ENTERPRISES LIMITED Regd. Off.: 412, Floor-4, 17G Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road,

Homiman Circle, Fort, Mumbai-400001 Corp. Off: Lodha Excelus, L 2 Apollo Mills Compound, N M Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai 400011

CIN: L99999MH1947PLC252768 Website: www.sanathnagar.in Email: investors.sel@lodhagroup.com Tel.: +91 22 67737373 Fax: +91 22 23024420

NOTICE OF 77th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 77th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held

on Wednesday, September 25, 2024 at 11.30 a.m. (IST) through Video Conference ('VC')/Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the business as set out in the Notice convening the said Meeting. The deemed venue of the meeting shall be Lodha Excelus, N M Joshi Marg, Mahalaxmi, In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made

thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the SEBI along with other applicable Circulars issued in this regard by the MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), the Notice of 77th AGM and the Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year 2023-24 have been sent in electronic mode to Members whose email-ids are registered with Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant(s) ("DPs"). The electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on March 31, 2024 have been sent and

The Notice of the 77" AGM and Annual Report for the financial year ended on March 31, 2024 is also available on the Company's website http://www.sanathnagar.in/, the Stock Exchange website i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com/, where the shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL' or 'e-voting agency') at https:// www.evoting.nsdl.com/. The documents pertaining to the items of businesses to be transacted in the AGM shall be available for inspection by electronic means. Members who are interested to inspect the documents referred to in the Notice may send an email to investors sel@lodhagroup.com, Members are requested to note that the physical copies of the aforesaid documents will not be made available to them by the Company.

#### Instruction for Remote e-voting and e-voting at the AGM: Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date

- A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to i.e., Wednesday, September 18, 2024 may cast their vote electronically on the business as set attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not to be out in the Notice through electronic voting system of National Securities Depository Limited a member of the Company. Proxies, in order to be effective must be signed and ("NSDL") from a place other than the Venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are stamped and received by the Company as its registered office not less than 48
  - The business as set out in the Notice of AGM shall be transacted through voting by electronic means only. The remote e-voting shall commence on Sunday, September 22, 2024 at (IST) 9:00 am
  - The remote e-voting shall end on Tuesday, September 24, 2024 at (IST) 5:00 pm.
  - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, September 18, 2024. Person who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company
  - after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date can follow the process of generating the login ID and password as provided in the Notice of AGM. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by the NSDL after
  - the aforesaid date and time for voting and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through E-voting shall be made available during the course of AGM for those who have not voted previously; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting during the AGM.
  - VII. The Notice of AGM is available at the website of the Company http://www.sanathnagar.in/ and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com VIII. In case of any queries, members may write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or designated
  - email investors.sel@lodhagroup.com for any grievance connected with the facility for voting by electronic means.
  - The company has appointed Mr. Shravan A. Gupta, (CoP No. 9990), Practicing Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner
  - The Register of Members and Share Transfer Register in respect of equity shares of the Company will remain closed from Monday, September 16, 2024 to Wednesday, September 25, 2024 (both days inclusive).

#### Manner of Registration / Updating the email addresses Members may note that as per the provisions of the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-

1/P/CIR/2023/37 dated March 16, 2023 (being part of the SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/ POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024), it is mandatory for all members holding shares in physical form to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details (Postal Address with PAN and Mobile Number), Bank A/c details and Specimen Signature for their corresponding folio numbers. Members may register / update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with

the RTA of the Company i.e., CIL Securities Limited which can be accessed from Company's website at www.cilsecurities.com or from the RTA's website at rta@cilsecurities.com.

FOR SANATHNAGAR ENTERPRISES LIMITED SHASHANK NAGAR COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER MEMBERSHIP NO.: A50668

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

# **RAVINDER HEIGHTS LIMITED**

CIN: L70109PB2019PLC049331 RAVINDER Regd. Office: SCO No. 71, First Floor, Royal Estate Complex, Zirakpur, Mohali , Punjab-140603 Corporate Office: 7th Floor, DCM Building, 16, Barakhamba Road, New Delhi – 110001

Tel: +91 11 43639000 • Fax: +91 11 43639015 **E-mail:** info@ravinderheights.com • **Website:** www.ravinderheights.com NOTICE OF THE 05th ANNUAL GENERAL MEETING.

#### REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the Fifth Annual General Meeting of the Members of

Rayinder Heights Limited ("the Company") will be held on Thursday. September 26, 2024, at 09:30 A.M. at Best Western Maryland Hotel Zirakpur, Chandigarh-140603 to transact the businesses as set out in Notice of AGM dated 28th August The Notice of 05th AGM along with proxy form, attendance Slip and Annual Report

together with Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) for the year ended March 31, 2024, shall be sent through electronic mode to those Members whose names appeared in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on August 30, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/Depositories & Share Transfer Agent/ Depository/ Depository Participant ("DPs") in compliance with relevant circulars. The aforesaid documents are also available on the Company's website at

https://ravinderheights.com/rvhl/ websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. In terms of the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with rule

12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI LODR Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from Thursday, 19th day of September, 2024 to Thursday, the 26th day of September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read

with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide evoting facility enabling them to cast their vote electronically on the resolutions as set out in the AGM Notice. The Company has availed the e-voting services as provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

### The Members of the Company are further informed as follow:

- 1. The remote e-voting period will commence on Monday, September 23, 2024 (from 09:00 a.m. IST) and end on Wednesday, September 25, 2024 (upto **05:00 p.m. IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- 2. The voting rights of the members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the total paid-up share capital of the Company carrying voting rights, as on the cut-off date, being September 19, 2024. Shareholders are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository participant. 3. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of
- beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting through ballot paper. 4. A Member who has casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may
- 5. The facility for voting through ballot papers shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the

6. Any person who has acquired shares and become member of the Company after dispatch of the Notice may obtain the login id and password for e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and admin@skylinerta.com. The members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting

7. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting user manual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 48867000 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 or contact at telephone nos.:- +91 22 24994545 or contact Company's RTA viz. Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at +91-11-40450193-97, and +91-11-26812682-83 or email at compliances@skylinerta.com or to the Company Secretary at secretarial@ravinderheights.com.

> By order of the Board of Directors For Ravinder Heights Limited Renuka Unival

Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi

Date: September 04, 2024

whatsoever.

printed in the AGM Notice carefully.

Membership- A71663

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

New Delhi

Date: September 02, 2024 Place: Mumbai financialexp.epapr.in

By order of the Board

(Jagdish Moolchandani)

Chairman & Managing Director

For Archies Limited

DIN: 00016718

electronically beyond the said date and time;

the Notice. 5. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. A person whose

Ms. Amruta Giradkar, of M/s. Amruta Giradkar & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No. ACS 48693)

निविदा सूचना निविदा संख्याः एनएफएल / पीएन / एसपीएक्स / 2023 / 336 दिनांकः 03.09.2024 निम्नलिखित के लिए खुली निविदा के आधार पर दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन बोलियां GeM पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं:

यूरभाष नंबर 01887-220588, ईमेल: ypbhagat@nfl.co.in

 विषय विवरण: HE-2B के प्रथम चरण के कुल कंडेन्सर का पूर्ण समाधान जिसमे शैल, लाइनर सहित सभी कम्पेनियन फ्लैंज शाँमिल हैं।

2) ईएमडी राशिः १ 1.00 लाख 3) अनुमानित लागतः ₹ 1.80 करोड

4) निविदा प्रस्तुत करने और खोलने की अंतिम तिथि और समयः GeM

पोर्टल बोली अनुसूची के अनुसार अधिक जानकारी और कार्य के दायरे आदि के लिए कृपया वेबसाइट https://www.nationalfertilizers.com, https://gem.gov.in देखें। इस निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रदर्शित किया जाएगा। विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइटों को नियमित रूप संदेखे।



भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरत्न कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking)

उप महाप्रबंधक (सामग्री)

अईती नई रवरीबीची बिरियन, दुसरी नंपिल, जोधाना इंटर्स्ट्रीयल एस्टेट (एनएसअईसी बोखाना बेट्टो स्टेशन के सक्नी), नई दिल्ली -11000 खुली निविदा सूचना (केवल ई-निविदा माध्यम से) ई-निविदा मोड के मध्यम से दो पैकेट निविदा प्रणाली में सुप । और सुप ।। में एरिया- ! में कॉनकॉर के विभिन्न टर्निनलों पर 20 फीट, 22 फीट, 40 फीट और 45 फीट लंबाई के कंटेनरों की रॉवलिंग के लिए 45 टी x 5 ऊंचाई की समता के 6 लोवेड रीप स्टेकर्स के संयालन और रखरखाय के लिए प्रेफेशनल सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑनलाइन ई—बेलियां अमेत्रिल की जाती है। निविदा स. CON/A-I/TECH/O&M 6 RSTs/2024

नेविवा की गई प्रमाज 6.99 वनुमानित लागत 作。12.30,925/一(市マ 可信用) रसेहर रामि (ईएमडी)' १५,00,000/- (कॉनकॉर को ऑनलाइन भुगतान गेटवे के महस्म सं) र1.000 /- कॉनकॉर को ऑनलाइन भगतान गेटवे के मध्यम सं दरतावेज की लागत\* १४,840 / - ऑनलाइन भगतान के माध्यम से (सभी कर सहित) निविवा प्रशंस्करण शुल्क' (अपनिवेव) निविदा विकी (जॉनलाइन) की तारीख 03.09.2024 अपराहन 15:00 करें से 17.09.2024 अपराहन 17:00 वजे तक बोली जमा करने की तारीख और समय 18.09.2024 को जपराहम 13.00 बजे तक बाली खालने की तारीख और समय 18.09.2024 की जनसङ्ग 15:00 बज

<sup>\*</sup>हे-भूगतान गाध्यम से पांजता मानवंड और जन्य विवरणों हेतु कृपया www.concorindia.com या www.eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। बोलीयाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइटों को देख रहें । कॉन्डकॉर बिना कोई कारण बताए किशी भी वा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । संप् समूह महाप्रबंधक/तकनीकी/एरिया-विकरण हेत् www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉनऑन करें।



भारतीय कंटेनर निगम निमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का उपक्रम, रेल मेत्रालय) (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING, MINISTRY OF RAILWAYS) NSIC New MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Ind. Estate (Opp. NSIC Okhla Motro Station), New Delhi-110020

ई-निविदा आमंत्रण सूचना कॉनकॉर 125 केवीए पीएनजी संचालित जेनरेटर सेट की आपूर्ति के लिए एकल पैकेट प्रणाली में ई-निविव आमंत्रित करता है।

निविदा संख्याः CON/CO/EP/ELECT/125 KVA/PNG/GEN/2024 कॉनकॉर भवन, सी-3, अपोलो अस्पताल के सामने, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110076 में कार्य का नाम 125 KVA PNG संचालित जनरेटर सेट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग रु. 16,97,480/- (सभी को शामिल करते हुए)

अनुबंध की अवधि 4 महीने बयाना राशि जमा 🛮 रू. 33,950/- (केतल ई-भूगतान के माध्यम से)। निविदा दस्तावेज की लागत (वापसी योग्य नहीं) । शन्य निविदा प्रसंस्करण शुक्क (वापसी योग्य नहीं) | रा. 1,002/- (ई-भूगतान के माध्यम से सभी कर और शुक्क सहित निविदा की बिकी की तिथि (ऑनलाइन) 03.09.2024 (11:30 बजे) से 23.09.2024 (17:00 बजे तक) निविद्य जमा करने की तिथि और समय 24.09,2024 17:00 बजे तक (केवल ई-निविद्या मोह)

निविदा खोलने की तिथि और समय 25.09.2024 11:30 वजे। वितीय पात्रता मान्द्रंड, कार्य की समान प्रकृति के संबंध में अनुमत आदि के लिए, क्रप्रया केंब्रसाइट www.concorindia.co.in फ हालाग्र विस्ता निविद्य सुचना देखें, किन्तु पूर्व निविद्य दस्तावेज केवल केवसङ्गट www.tenderwizard.com/CCIL से हाउनली किया जा सकता है। इसके अनावा, इस निविदा का सुद्धिपत्र/परिविष्ट, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट www.concorindia.co.in www.tenderwizard.com/CCIL और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपी) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लि महाप्रबंधक/परियोजनाएं, फोन नं.: 011-41222500 समाचार पत्र प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

#### जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सीआईएनः L65923UP2012PLC051433 पंजीकृत कार्यालयः १९वीं के.एम. हापुड - बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी,

जिला, बलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203408 कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 12. तेक्टर बी-1. स्थानीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. वसात कज, गई दिल्ली - 110 070

टेलीफोन नं: 011-40322100; ई-मेल आईडी: cs\_jpilci@jindalgroup.com; वेबसाइट: www.jpilci.com

पब्लिक नोटिस - 12वीं वार्षिक आम बैठक

एतदहारा नोटिस दिया जाता है कि जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ('कंपनी को 12वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजअल साधनों ('ओएवीएम') की सविधा के माध्यम से बिना सदस्यों की सामान्य स्थल पर भौतिक उपरिधति के सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023, सामान्य परिपत्र 2 / 2022 दिनांक 5 मई 2022 और 19/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 और सामान्य परिपन्न संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, (सामृष्टिक रूप से "एमसीए परिपन्न" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसी तरह की छूट भारतीय प्रतिभृति और विनिगय बोर्ड ने अपने परिपन्न संख्या सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 ('संबी परिपन्न') के माध्यम से भी प्रदान की है।

सदस्यगण यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढाने के लिए, एजीएन के नोटिस जिसमें एजीएम और ई-वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इंस्टा दोनों) में भाग लेने का तरीका और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ढीपी) के साथ पंजीकृत हैं और यह कंपनी की वेबसाइट www.jpifcl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिय लिमिटेड (एनएसई) की www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com प

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और इसका विवरण ई–वेटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इस्टा दोनों) में भाग लेने के तरीके के साथ कंपनी द्वारा एजीएम व नोटिस में प्रदान किया जाएगा। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों क अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएना और इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट करें:

शेयर धारक

वे शेयर धारक सदस्य जिन्होंने कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है. उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपना ईमेल पता कंपनी वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ईमेल आईडी einward.ris@kflintech.com पर ईमेल अनुरोध भेजकर पंजीकृत / अपडेट करें, साथ ही ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन कॉपी और अपना ईमेल पता पंजीकृत करने और वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम नोटिस और ई—वोटिंग निर्देश प्राप्त करने के लिए शेयर प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हरलाक्षरित स्कैन की गई प्रति भी भेज दें।

डीमैट शेयर अपने संबंधित डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमैट खाते में विवरण पंजीकृत करें / अपडेट करें

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपन्न(जो) और सेबी परिपन्न(जो) के अनुपालन में है।

क्ते जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटे

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 02/09/2024 घनश्याम दास सिंघल प्रबंध निदेशक

वीवो कोलैबोरेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड (सीआईएन : L72900DL2012PLC230709) पंजीकृत कार्यालयः 315, तृतीय तल, एचबी ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली - 110034, ईमेल : sanjay.mittal@vivo.ooo, वेबसाइट : www.vivo.ooo, दूरभाष : 91-7838651690

13वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई-वोटिंग जानकारी

तथा बही समापन की सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कंपनी की 13वीं वार्षिक आम बैटक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को अप. 02:00 बजे (आईएसटी) पर, 13वीं एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार, व्यापार का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के अनुसार, सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 और 03/2022 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 05 मई 2022 के साथ पढ़ें और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्गत अन्य लागू परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआरपी/पी/2020/79 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार, 13वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023—24 केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है. जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सुचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 02 सितंबर, 2024 को पूरा हो गया है। उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.vivo.ooo पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.nseindia.com पर उपलब्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और आम बैठक पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को वीसी /ओडब्ल्यूवीएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से वोट करने और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की दुरस्थ ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराकर संतुष्ट है। इस संबंध में प्रक्रिया / अनुदेश एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए हैं। कंपनी के सदस्य, जो कट ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितंबर 2024 के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, वे रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट करने तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने तथा एजीएम में वोट डालने के पात्र हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट—ऑफ तिथ के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार 23 सितंबर 2024 (सुबह 09.00 बजे) से शुरू होगी और बुधवार 25 सितंबर, 2024 (शाम 05.00 बजे) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए किसी प्रस्ताव पर वोट कर देते हैं तो उन्हें बाद में इसे बदलने की अनमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने

के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् गुरुवार 19 सितंबर 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग

ई-वोटिंग प्रक्रिया को एक निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से जांचने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी श्री संजीव डबास को जांचकर्ता नियुक्त किया गया है।

जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 23 सितंबर, 2024 को या इससे पहले शेयरधारकों के नाम और पते का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, पैन/अन्य पहचान की स्व–सत्यापित प्रति और पते के प्रमाण के साथ अपना नाम, डीमैट खाता / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी. मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी को अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से atcs@vivo.oooon पर एक अनुरोध भेजकर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।

डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को अपडेट करें। ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण

शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800–1020–990 या 1800–224–430 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुंबई-400013 से नामित ईमेल आईडी : evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते वीवो कोलैबोरेशन सॉल्युशंस लिमिटेड दिनाँक : 03-09-2024 संजय मित्तल (प्रबंध निदेशक) स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 01710260

Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. www.aubank.in

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles on 09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

CHANDIGARH-SECTOR 9C - 23660001998303 24660000096785 Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form. which is made available before the commencement of auction.

> Sd/-Manager AU Small Finance Bank Limited



रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1992PLC050142 पंजीकृत कार्यालयः ८२०, अंतरिक्ष भवन, २२, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 टेलीफोनः (011) - 011-41069500, 43509305, 43513857 फैक्सः 011-23738974 ई-मेलः secretarial@replurbanplanners.com, वेबसाइटः www.repl.global 26 सितंबर, 2024 को वीडियो कॉन्फेंस (वीसी )/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओभीएएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में जानकारी

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3:00 बजे आईएसटी पर आयोजित की जाएगी। परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी दिनांक 25 सितंबर, 2023 का सं. 09/2023 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021, 13 मई, 2022, 05 जनवरी 2023 और अक्टूबर 07, 2023 ('सेबी परिपत्र') (सेबी परिपत्र) 32वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पुरा करने के लिए की गई है।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने 32वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी हैं जिनके ईमेल पते कंपनीध्रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''रजिस्ट्रार'') और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(एस) (''डीपीएस'') के पास पंजीकृत हैं। 32वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.repl.global और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाती है जो 820, अंतरिक्ष भवन, 22 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली—110001 पर स्थित है। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

| शेयरधारकों को रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर दर से ही अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शूक्रवार 20 सितंबर 2024 से गरुवार 26 सितंबर 2024 तक बंद रहेंगी। बोर्ड के आदेश से

रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए हस्ता / रहस बिहारी पांडा

कंपनी सचिव

Apollo

स्थान: नर्ड दिल्ली

दिनांकः 02 सितंबर 2024

इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड पत्री कार्यालय : सरिता विहार, दिल्ली-मयुरा रोड, गई दिल्ली 110 076 (मारत ) निगमित पहाचान संख्या : L24232DL1988PLC030958 दूरमाष : 91.11.26925858, 26925801, फैक्स : 91.11.26823629 –मेत: imcl@apollohospitals.com, वेबसाइट: https://www.apollohospitals.com/d

36वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

वार्षिक आम बैठक

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरशन लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 10:45 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमाँ (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक की लुचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 5 मई, 2022, 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्रों के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 7 अक्टूबर 2023 के परिपत्रों के साथ, सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार एजीएम केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया एजीएम की सुचना में दी गई है। साथ ही, उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, 36वीं एजीएम की सचना (जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है) पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट के साथ, केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी या उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। ईमेल के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 का प्रेषण 31 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता को ऊपर उल्लिखित सेबी परिपत्र के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.apollohospitals.com/delhi और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम २०, तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, २०१५ के विनियम 44, (सूचीबद्धता विनियम) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सिंधवीय मानक (SS2) के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है तथा ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से कारोबार का संचालन किया जा सकता है। एजीएम के आयोजन स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा प्रदान की जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढें। ई-वोटिंग सुविधा का विवरण

- i. रिमोट ई--वोटिंग अवधि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 (सुबह 9:00 बजे) से खुलेगी और सोमवार, 23 सितंबर, 2024 (शाम 05:00 बजे) को समाप्त होगी।
- ii. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 17 सितंबर 2024 तक शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
- iii. एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई--वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे के बाद अक्षम कर दी जाएगी और सदस्यों को उक्त समय के बाद वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी (वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने का विस्तत तरीका एजीएम नोटिस के नोटस में उल्लिखित किया गया है)। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक में फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकें से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए श्री बलदेव सिंह कश्तवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफसीएस 3616 और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस संख्या 3169) को आगामी एजीएम के लिए स्कृटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।
- vi. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे को अनुरोध भेज सकते हैं।


### बुक क्लोजर

इसकें साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 42 के साथ उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजरटर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम तथा लाभाश मुगतान के उद्देश्य से शनिवार, 14 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए हस्ता./-

दिनांक: 31-08-2024 स्थान : नई दिल्ली

प्रिय रंजन एवीपी – कॉर्पोरेट मामले और विधि (कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)





हम, डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड (सेबी पंजीकरण संख्याः INZ000179035) एतदार आम जनता, निवेशकों और अन्य हितधारकों को सूचित करते हैं कि, हमने एक्सचेंज की मंजूरी के अधीन, अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण, एनएसई के साथ पंजीकृत अधिकृत व्यक्ति "फिनक्सपर्ट ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" का पंजीकरण समाप्त कर दिया है। एपी का विवरण इस प्रकार है:

अधिकृत व्यक्ति का नाम	एनएसई एपी पंजीकरण संख्या	पता	पैन
फ़िनक्सपर्ट ट्रेडिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	AP0065000363	जी—69, सेक्टर 63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश — 201301,संपर्क नंबर — 8851610130 ईमेल आईडीः : finxpertservices21@gmail.com	AAFCF9431L

आम जनता से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उक्त एपी अब किसी भी क्षमता में डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड से जुड़ा नहीं है और उक्त एपी के साथ कोई लेन–देन नहीं करना चाहिए। फिनक्सपर्ट ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लेमिटेड के साथ कोई भी लेन–देन जनता / निवेशकों के अपने जोखिम पर होगा। उपरोक्त आदेश निवेशकों और आम जनता के हित में जारी किया गया है।

डीबी (इंटरनेशनल) स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड के लिए

दिनांक 02.09.2024

(शिव नारायण डागा) प्रबंध निदेशक

## optiemus

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः के-20, द्वितीय तल, लाजपत नगर - II. नई दिल्ली -110024 कॉर्पोरेट कार्यालयः डी-348, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 वेबसाइटः www.optiemus.com, ईमेलः info@optiemus.com, फोन : 011-29840906 कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

रतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 30 सितंबर, 2024 के सुबह 11:00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") वे गाध्यम,कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी क्रमशः ०८ अप्रैल, २०२०, १३ अप्रैल, २०२०, ०५ मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 और 10/2022, उसके बाद परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा अक्टबर.

अन्य सभी लागू परिपत्रों और अधिसूचनाओं के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी - पीओडी - 2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 और एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी

www.optiemus.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, नई दिल्ली-110062, टेलीफोन: 011-29961281-83, ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक https://www.optiemus.com/ shareregistration.html, पर उपलब्ध विधिवत दायर और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके अपना ई-मेल पता और मोबाइल

नंबर पंजीकृत / अपडेट करें; शेयरधारकों को इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित अनसार व्यवसाय पर दूर से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूर से वोट करने का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा, जो कंपनी की वेबसाइट www.optiemus.com पर भी

एजीएम में इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की सविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में 31वीं एजीएम की सूचना शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार शीघ्र ही भेजी

बोर्ड के आदेशानुसार ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड दिनांकः 02 सितंबर, 2024 स्थानः नोएडा (यू.पी.) कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

@rchies

The nest special way to say you core

आचींज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 191एफ, सेक्टर-4, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा—122050 सीआईएनः L36999HR1990PLC041175, वेबः www.archiesonline.com और www.archiesinvestors.in

ईमेलः archies@archiesonline.com, टेलीफोनः +91 124 4966666 34वीं वार्षिक आम बैठक, बक क्लोजर और ई-वोटिंग की सचना

रतद्दवारा सूचित किया जाता है कि आर्चीज लिमिटेड (सीआईएन L36999HR1990PLC041175) की 34वीं (चौंतीसवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को अपराह 03:00 बजे वीसी / ओएवीएम के माध्यम से कारोबार करने के लिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण के साथ वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना, मतदान (दूरस्थ ई–वोटिंग सहित) से संबंधित विस्तृत निर्देशों और सूचनाओं के साथ उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिन्होंने इसकी भौतिक प्रतियां अपने पंजीकृत पते पर और अन्य सभी सदस्यों को इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से मांगी हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in पर भी उपलब्ध है। कंपनी ने 02 सितंबर, 2024 को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने का काम पूरा कर लिया है। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 के

अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना 02 सितंबर, 2024 को उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट यानी www.archiesinvestors.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट में रखे गए हैं तो वे डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (https://instavote.linkintime.co.in) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत / अपडेट करें। ईमेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सदस्य

enotices@linkintime.co.in या cs@archiesonline.com पर लिख सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से सिस्टम का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए इलेक्ट्रिक माध्यम से मतदान की (दूरस्थ ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान कर रही है।

कट—ऑफ तिथि यानी मंगलवार, 17 सितंबर, 2024 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम स्थल पर मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। कंपनी ने ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (https://instavote.linkintime.co.in) की सेवाएँ ली हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. ई-मेल के माध्यम से एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट-2023-24 की सूचना भेजने की अंतिम तिथिः

- कंपनी की 34वीं एजीएम की सचना में उल्लिखित साधारण और विशेष व्यवसाय इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान और एजीएम स्थल पर मतदान के माध्यम से निपटाए जाएंगे
- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 21 सितंबर 2024 (09:00 पूर्वाह्न आईएसटी) से शुरू होगी और सोमवार, 23 सितंबर 2024 (05:00 अपराह्न आईएसटी) पर समाप्त होगी। इसके बाद, ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय हो जाएगा रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की
- कट-ऑफ तिथि 17 सितंबर, 2024 है: वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के पास रखे
- गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगाः वह व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि को शेयर रखता है, वह enotices@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी
- एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में अपने वोट के
- अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट देने का अधिकार नहीं होगाः रजीएम में भाग लेने और वोट देने का हकदार सदस्य खुद के बजाय मतदान में भाग लेने औ

वोट देने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी होने के लिए, प्रॉक्सी पर हस्ताक्षर और मुहर लगनी चाहिए तथा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://instavote.linkintime.co.in पर सहायता अनुभाग के

अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या हमें टेलीफोनः 022 – 49186000 पर फोन कर सकते हैं – भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए

हैं, वे अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, जिसमें फोलियो नंबर और शेयरधारक का नाम, पैन और आधार की स्व-सत्यापित प्रति, cs@archiesonline.com पर कंपनी को ईमेल द्वारा भेजकर वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ एजीएम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें एजीएम के उद्देश्य से बुधवार, 18 सितंबर,

2024 से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी। ई—वोटिंग और परिणामों की घोषणा के लिए संवीक्षक कंपनी ने मेसर्स एनएसपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के मालिक श्री नवीन श्री पांडे, प्रैक्टिसिंग कंपनी

सिक्रेटरी (एफसीएस नंबर 9028 और सीपी नंबर 10937) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से और लागू कानूनों

के अनुसार मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। प्रस्तावों पर परिणाम कंपनी की बैठक के समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.archiesinvestors.in और सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे और बैटक के समापन से 48 घंटे के भीतर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचित किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं तो वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपने बैंक खाते का परा विवरण अपडेट करें और यदि वे भौतिक रूप से रखे गए हैं तो कंपनी के आरटीए के साथ या cs@archiesonline.com पर सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन की स्व-सत्यापित प्रति और रद्द किए गए चेक लीफ का उल्लेख करते हुए अनुरोध पत्र की प्रति के

शेयरधारकों को एक ही बार में अपना ईमेल पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करने की सुविधा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जाना होगा।

यहाँ क्लिक https://linkintime.co.in/emailreg/email\_register-html करें:

बोर्ड के आदेश से आर्चीज लिमिटेड के लिए (जगदीश मूलचंदानी) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



Registered Office: 19-A Dhuleshwar Garden, Jaipur, Rajasthan, India, 302001.

www.aubank.in LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from AU Small Finance Bank Limited ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles. on 09 Sep 2024 between 11:00 AM - 3:00 PM (Time) at below mentioned branches according to the mode specified therein. In the case of deceased borrowers, all conditions will be applicable to legal heirs. Please note that in the event of failure of the above auction, the bank reserves its right to conduct another auction without prior intimation.

E-Auction Branch Details (E-auction will be conducted by using Weblink https://gold.samil.in)

DEHRA DUN - 22660000952349 23660000767975 23660000890163 24660000338812 |

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction,

Manager

AU Small Finance Bank Limited

विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड (पूर्व में विभोर स्टील ट्यूब्स (पी) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत पताः प्लॉट नेंबर 2, औद्योगिक विकास कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार

(हरियाणा)— 125005 भारत, सीआईएनः L27109HR2003PLC035091, दूरभाष संख्याः 01662-237359, 222710, ईमेल आईडी: contact@vstlindia.com,

वेबसाइटः www.vstlindia.com 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना,

ई-वोटिंग सूचना और बुक क्लोजर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि संशोधित किया गया है, यह सूचना दी जाती है कि: 1. कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार 26 सितंबर 2024 को दोपहर 2.00 बजे बैंक्वेट हॉल,

सनसिटी मॉल, दिल्ली रोड, औद्योगिक क्षेत्र, हिसार, हिरयाणा-125001 में आयोजित की जाएगी। 2. लागू सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट वं साथ एजीएम बुलाने की सूचना उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण सोमवार, 2 सितंबर 2024 को पूरा हो गया है। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://www.vstlindia-com/vstl-india.php पर स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। 3. कट—ऑफ तिथि अर्थात गुरुवार 19 सितंबर 2024 को शेयर रखने वाले सदस्य, 21वीं एजीएम की सूचना में

सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से और एजीएम में मत पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। . सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

निर्धारित साधारण / विशेष कारोबार पर एजीएम स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से सेंट्रल डिपॉजिटरी

1. 21वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण/विशेष कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से

2. रिमोट ई—वोटिंग सोमवार, 23 सितंबर 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी।

3. रिमोट ई—वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर 2024 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। 4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या एजीएम में वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कट—ऑफ तारीख गुरुवार, 19

सितंबर 2024 है। 5. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और 21वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार 19 सितंबर, 2024 तक शेयर धारण करता है, helpdesk-evoting@cdslindia.com या cs@vstlindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता

ए) वोटिंग के लिए उपरोक्त तारीख और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने

बी) एजीएम में पोलिंग पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सी) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते

डी) केवल एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 19 सितंबर 2024 को सदस्यों के रजिस्टर और लाभकारी मालिकों की सूची में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ पोलिंग पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स केआरएस एंड कंपनी के श्री केतन रवींद्र शिरवाडकर, प्रैक्टिसिंग कंपनी

सेक्रेटरीज, ठाणे, (मेम नंबर ए 37829 और सीओपी नंबर 15386) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग/मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियक्त 8. मतदान के नतीजे कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट www.vstlindia.com पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक

एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सुचित किया जाएगा और सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। 9•. प्रश्नों के मामले में, सदस्य https://www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग में सदस्यों के लिए अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या हेल्पडेस्क नंबर 18002005533 पर कॉल कर सकते हैं या श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल,) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई 400013, फोन नंबर 18002005533, ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslin-

dia.com से संपूर्क कर सकते हैं जो इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान से जड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्य कंपनी की ई-मेल आईडी cs@vstlindia.com पर भी लिख सकते हैं। 5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 21वीं वार्षिक आम

बैठक के प्रयोजनार्थ कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। कंपनी की वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य को स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को सदस्य होने की

स्थान: हिसार दिनांकः 03 सितंबर, 2024

हस्ता /-

विकास चंद्रा

डीआईएनः 02249672 **ALL E TECHNOLOGIES LIMITED** 

(Formerly: All e Technologies Pvt. Ltd.)

विभोर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरकर्ता /-

श्री विजय कौशिक

CIN: U72200DL2000PLC106331 Tel.: +91-120-3000 300, www.alletec.com

Regd. Office: UU-14, Vishakha Enclave, Pitampura Delhi-110034, India NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of All e Technologies Limited is scheduled to be held on Friday, September 27, 2024 at 4:00 PM (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means (VC), in Compliance with General Circular latest one being Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with earlier circular and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, ('SEBI Circulars') and the applicable provision of the Companies Act, 2013 ('the ACT') read with the

24th AGM (AGM Notice). Completion of dispatch of AGM Notice & Annual Report For FY'24: In compliance with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company has sent the AGM Notice and the Annual Report for FY'24 on Monday, September 02, 2024 via, e-mail, to those Members whose e-mail address was registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant(s)

Rules made there under, to transact the business set forth in the Notice convening the

The AGM Notice and Annual Report are also available on the Company's Website at https://www.alletec.com/investors-alletec, on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and also on the website of the Stock Exchange i.e. The National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com/.

E-voting: In compliance with Section 108 of the Act read with the Rules made thereunder, Regulation 44 of the Listing Regulations and the Secretarial Standard - 2 on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India, Members have been provided with the facility to cast their vote on all resolution set forth in AGM Notice using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, September 20, 2024 ('Cut-off date') will be entitled to cast their vote by remote evoting or e-voting during the AGM. Participation of members through VC will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Act

The voting right of the Members shall be in proportion to their shareholding to the paidup equity share capital of the Company as on the Cut off date. Once a vote is cast by a Member, she/he will not be able to change it subsequently. Members can opt for only one mode of voting i.e. through remote e-voting or e-voting at the AGM. If a Member casts the votes by both modes then the voting done through remote e-voting shall prevail. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM and access to the AGM is outlined in Notes to the AGM Notice.

The Remote e-voting period begins on Tuesday, September 24, 2024 (9:00 AM IST) and ends on Thursday, September 26, 2024 (5:00 PM IST). Thereafter, the remote evoting module shall be disabled by NSDL and Members will not be allowed to vote. Members who have exercised their right to vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again Dividend: The Board of Directors at its meeting held on May 20, 2024 has

recommended a final dividend of ₹ 1 per Equity Share of the face value of ₹ 10/-each (i.e. 10% on the face value of Equity Share). The Record Date for the purpose of Payment of Final Dividend is fixed as Friday, September 20, 2024, if approved at the 24th AGM, Members may please refer to Notes of the AGM Notice for TDS-related instructions on dividend payment.

Members who have not registered/updated their e-mail address and/or bank account details are requested to register/update the same in the records of the Company/Depository, as case may be, in the following manner:

Members holding share in the Demat form Members holding share in the Physical form

Through the Company RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited For any queries relating to e-voting, Members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual available in the download section of

www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi

Mhatre - Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in. By order of the Board of Directors All E Technologies Limited Ajay Mian

Through their respective

Depository Participant (DP)

September 02, 2024 Ohio, U.S.A.

डीनः 00016718

Managing Director DIN No. 00170270

www.readwhere.com

दिनांकः 02.09.2024